



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 माघ 1934 (श0)  
(सं0 पटना 109) पटना, वृहस्पतिवार, 7 फरवरी 2013

---

सं0 5/आ0-102/03-39  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प  
24 जनवरी 2013

विषय—श्री श्यामा प्रसाद चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की स्थायी कटौती के आदेश को रद्द करने के संबंध में।

श्री श्यामा प्रसाद चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध कतिपय प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प-सह-पठित ज्ञापक 146 दिनांक 04.04.12 द्वारा उनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की स्थायी कटौती करने का आदेश निर्गत किया गया था। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C.W.J.C. सं0 6487/2006 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 20.07.2012 द्वारा उक्त विभागीय संकल्प को निरस्त कर दिया गया है। तदनुसार उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापक 146 दिनांक 04.04.12 को रद्द किया जाता है।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधितों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अनिरुद्ध प्रसाद सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 109-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>